



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1940 (श0)
(सं0 पटना 408) पटना, शुक्रवार, 4 मई 2018

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

18 अप्रैल 2018

सं० 5 नि०गो०वि० (3) 01/2018-99नि०गो०—वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2016-17 तक राज्य सरकार द्वारा संचालित समग्र गव्य विकास योजना के तहत जिला पशुपालन कार्यालय, समस्तीपुर में डेयरी ईकाई की स्थापना तथा अनुदान वितरण में की गई अनियमितता की जाँच हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा समर्पित अंतरिम जाँच प्रतिवेदन के आधार पर डा० ओंकार नाथ दिवाकर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा जाँच से संबंधित अभिलेख एवं कागजात से छेड़छाड़ करने तथा जाँच दल को सहयोग नहीं करने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9(1) (क) में वर्णित प्रावधान के आलोक में उन्हें निलंबित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में :—

1. डा० ओंकार नाथ दिवाकर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में डा० दिवाकर को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन अवधि में डा० दिवाकर का मुख्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फपुर निर्धारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 408-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>